



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932  
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2011

का.आ. 101(अ).—यतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1820(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2005 द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का गठन किया गया था और इसका प्रथम अधिवेशन 19 जनवरी, 2006 को हुआ था;

और यतः, परिषद् का कार्यकाल इसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से केवल पांच वर्ष के लिए है और इसके पश्चात् नहीं;

और यतः, उक्त अधिसूचना के अधीन इस प्रकार गठित परिषद् का कार्यकाल, इसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के पूरा होने पर, अर्थात् 18 जनवरी, 2011 को समाप्त हो जाएगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1820(अ) के अधिक्रमण में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का निम्न रूप से पुनर्गठन करती है :

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत, दिल्ली की मुख्य मंत्री से परामर्श करके, श्री परिमल राय को अध्यक्ष नियुक्त करती है;

(ख) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे :—

(i) श्रीमती शीला दीक्षित,  
मुख्य मंत्री, दिल्ली

(ii) श्री कर्ण सिंह तंवर,  
विधान सभा सदस्य, दिल्ली

(ग) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

(i) श्री एम. गोपाल रेड्डी,  
संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र),  
गृह मंत्रालय,  
भारत सरकार

(ii) डॉ. एम. एम. कुट्टी,  
संयुक्त सचिव (डी एंड एल),  
शहरी विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार

(iii) श्री एस. के. सिंह,  
भूमि एवं विकास अधिकारी,  
शहरी विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार

(iv) श्री धर्मेन्द्र,  
सचिव,  
पर्यावरण एवं वन विभाग,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(v) श्रीमती रीता कुमार,  
विशेष आयुक्त (वी ए टी) और  
निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(घ) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत, दिल्ली की मुख्य मंत्री से परामर्श करके, निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है :—

- (i) श्रीमती ताजदार बाबर,  
नं. 1, गोल्फ लिंक सदन, गोल्फ लिंक  
निकट खान मार्केट, नई दिल्ली
- (ii) श्री अशोक आहुजा,  
64-ए, एम आई जी, डी डी ए फ्लैट्स,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली ।

(ङ) धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत श्री अजय माकन, संसद सदस्य, नई दिल्ली विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे;

(च) धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार, दिल्ली की मुख्य मंत्री से परामर्श करके, श्रीमती ताजदार बाबर, सदस्य, को परिषद् की उपाध्यक्ष नामित करती है ।

[फा. सं. 14011/48/2010-दिल्ली-II]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2011

**S.O. 101(E).**—Whereas the New Delhi Municipal Council was constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1820(E), dated the 27th December, 2005 and its first meeting was held on 19th January, 2006;

And whereas, the duration of the Council is five years from the date appointed for its first meeting and no longer;

And whereas, the duration of the Council so constituted under the said notification shall come to an end, on completion of the period of five years from the date of its first meeting, that is on 18th January, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 and section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) and in supersession of the notification number S.O. 1820(E), dated the 27th December, 2005, the Central Government hereby re-constitutes the New Delhi Municipal Council as under :—

- (a) under clause (a) of sub-section (1) of Section 4, in consultation with the Chief Minister of Delhi, appoints Shri Parimal Rai as Chairperson;
- (b) under clause (b) of sub-section (1) of Section 4, the following persons shall be members :—

- (i) Smt. Sheila Dikshit,  
Chief Minister, Delhi
- (ii) Shri Karan Singh Tanwar,  
Member of Legislative Assembly, Delhi;

(c) under clause (c) of sub-section (1) of Section 4, the following persons are nominated as members :—

- (i) Shri M. Gopal Reddy,  
Joint Secretary (UT),  
Ministry of Home Affairs,  
Government of India
- (ii) Dr. M. M. Kutty,  
Joint Secretary (D & L),  
Ministry of Urban Development,  
Government of India
- (iii) Shri S. K. Singh,  
Land and Development Officer,  
Ministry of Urban Development,  
Government of India

(iv) Shri Dharmender,  
Secretary,  
Department of Environment and Forests,  
Government of National Capital Territory of Delhi

(v) Smt. Rita Kumar,  
Special Commissioner (VAT) and  
Director, Directorate of Information and  
Publicity,  
Government of National Capital Territory of Delhi;

(d) under clause (d) of sub-section (1) of Section 4, in consultation with the Chief Minister of Delhi, the following persons are nominated as members :—

- (i) Smt. Tajdar Babar,  
No. 1, Golf Link Sadan, Golf Link  
Near Khan Market, New Delhi
- (ii) Shri Ashok Ahuja,  
64-A, MIG, DDA Flats,  
Katwaria Sarai, New Delhi;

(e) under sub-section (2) of Section 4, Shri Ajay Maken, Member of Parliament, New Delhi shall be the special invitee;

(f) under sub-section (4) of Section 4, the Central Government, in consultation with the Chief Minister of Delhi, nominates Smt. Tajdar Babar, Member, as the Vice-Chairperson of the Council.

[F. No. 14011/48/2010-Delhi-II]

R. P. NATH, Jt. Secy.